

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2025 श्रावण 3 शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 19-02-2025

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक (3)	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक (4)	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक (5)	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक (6)	250.0 मि.मी. से अधिक (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बलौदाबाजार	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	दुर्ग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
9.	राजनांदगांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
10.	खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	मोहला-मानपुर- अम्बागढ़-चौकी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
13.	बस्तर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
15.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
16.	कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	दंतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
18.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
19.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20.	बिलासपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
23.	जांजगीर-चांपा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	सक्ती	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
26.	सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	बलरामपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	कोरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
30.	मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
31.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
32.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
33.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई .**— कुछ जिलों में रबी फसल की जुताई व बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई .**— जिला बेमेतरा, में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई .**— कुछ जिलों में खरीफ फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति .**— जिला रायगढ़ में फसल की हालत सुधरी है। जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर व जशपुर में फसल की हालत सामान्य है।

6. **चारा .**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **बीज प्राप्ति .**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **खेतीहर श्रमिक .**— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-02-2025

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धरसीवा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. आरंग	..				
4. मंदिर हसौद	..				
5. अभनपुर	..				
6. गोबरा-नवापारा	..				
7. तिल्दा	..				
8. खरोरा	..				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. सिमगा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भाटापारा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बलौदाबाजार	..		(2) ..		
4. पलारी	..				
5. कसडोल	..				
6. लवन	..				
7. सुहेला	..				
8. टुण्डरा	..				
9. सोनाखान	..				
जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
बिन्धानवागढ़					
1. अमलीपदर	..	2. रबी फसल की रोपाई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गरियाबंद	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. राजिम	..		(2) ..		
4. फिंगेश्वर	..				
5. छुरा	..				
6. मैनपुर	..				
7. देवभोग	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. पिथौरा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	..		(2) ..		
4. कोमाखान	..				
5. सरायपाली	..				
6. बसना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्म कालीन धान की	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	..	रोपाई का कार्य भी जारी है.	4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	..				
5. भखारा	..				
6. कुकरेल	..				
7. बेलरगांव	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..		4. (1) चना फसल की कटाई का कार्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..		जारी है. फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. भिलाई-3. .			सामान्य है.		
5. बोरी	..				
6. अहिवारा	..				
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	..	2. कीट प्रकोप की शिकायत	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	..	है उपचार जारी है.	4. (1) तुअर फसल की कटाई का कार्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. देवकर	..		जारी है. फसल की हालत	चारा पर्याप्त	
4. बेरला	..		सामान्य है.		
5. भिभौरी	..		(2) ..		
6. बेमेतरा	..				
7. दाढ़ी	..				
8. नवागढ़	..				
9. नांदघाट	..				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	..		4. (1) रबी फसल की कटाई का कार्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	..		जारी है.	चारा पर्याप्त.	
4. डौण्डी	..		(2) ..		
5. डौण्डीलोहारा	..				
6. अर्जुन्दा	..				
7. मा. बं. देवरी	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. डोंगरगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लाल बहादुर नगर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. राजनांदगांव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. घुमका	..				
5. छुरिया	..				
6. कुमरदा	..				
7. डोंगरगांव	..				
जिला-खैरागढ़-	मिलीमीटर				
छुईखदान-गण्डई					
1. खैरागढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छुईखदान	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गण्डई	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. साल्हेवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	मिलीमीटर				
1. अं.चौकी	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मोहला	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मानपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. औंधी	..				
5. खड़गवां	..				
जिला-कवर्धा-कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. गन्ना फसल हेतु जुताई एवं	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. पंडरिया	..	बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) तुअर लाख फसल की कटाई का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बोडला	..		कार्य जारी है.	चारा पर्याप्त.	
4. सहसपुरलोहारा	..		(2) ..		
5. रेंगाखारकला	..				
6. कुंडा	..				
7. पिपरिया	..				
8. कुकदुर	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नानगुर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बस्तर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भानपुरी	..				
5. बकावण्ड	..				
6. करपावण्ड	..				
7. लोहन्डीगुड़ा	..				
8. बास्तानार	..				
9. तोकापाल	..				
10. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. मर्दापाल	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. माकड़ी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. फरसगांव	..				
5. केशकाल	..				
6. धनोरा	..				
7. बड़ेराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छोटे डोंगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओरछा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कोहकामेटा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	..	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
8. सरोना	..				
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	..				
5. बड़ेबचेली	..				
6. बारसूर	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. छिन्दगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. सुकमा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गादीरास	..			चारा पर्याप्त.	
4. कोन्टा	..				
5. जगरगुड़ा	..				
6. दोरनापाल	..				
7. तोंगपाल	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. कुटरू	..				
5. भोपालपटनम्	..				
6. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. रबी फसल की जुताई का	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..	कार्य जारी है. एवं ग्रीष्म-	4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..	कालीन धान की रोपाई का	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	..	कार्य जारी है.			
5. कोटा	..				
6. सीपत	..				
7. बोदरी	..				
8. बेलगहना	..				
9. बेलतरा	..				
10. रतनपुर	..				
11. सकरी	..				
12. पचपेड़ी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-गौरेला	मिलीमीटर				
पेण्ड्रा-मरवाही					
1. पेण्ड्रारोड	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	..				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	..			चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	..				
जिला-जांजगीर- चाँपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	..				
5. पामगढ़	..				
6. चाम्पा	..				
7. शिवरीनारायण	..				
8. बम्हनीडीह	..				
9. सारागांव	..				
जिला-सक्ती	मिलीमीटर				
1. सक्ती	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. जैजेपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मालखरौदा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डभरा	..				
5. नया बाराद्वार	..				
6. अडभार	..				
7. हसौद	..				
8. चन्द्रपुर	..				
9. भोथिया	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. अजगरबाहार	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोरबा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैसमा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. करतला	..				
5. बरपाली	..				
6. कटघोरा	..				
7. दीपका	..				
8. दर्ी	..				
9. पाली	..				
10. हरदीबाजार	..				
11. पोड़ीउपरोड़ा	..				
12. पसान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लुण्ड्रा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	..				
5. लखनपुर	..				
6. उदयपुर	..				
7. बतौली	..				
8. मैनपाट	..				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. प्रतापपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. सूरजपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओड़गी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. भैयाथान	..				
5. रामानुजनगर	..				
6. प्रेमनगर	..				
7. लटोरी	..				
8. बिहारपुर	..				
9. भटगांव	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डौरा-काचली	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. रामानुजगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. रामचन्द्रपुर	..				
5. वाड्रफनगर	..				
6. रघुनाथनगर	..				
7. चलगली	..				
8. राजपुर	..				
9. शंकरगढ़	..				
10. कुसमी	..				
11. सामरी	..				
12. चान्दो	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	..	2. रबी फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	..		4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य जारी है. फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पटना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पोड़ी-बचरा	..				
जिला-मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	मिलीमीटर				
1. मनेन्द्रगढ़	..	2. रबी फसल की जुताई का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खड़गावां	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चिरमिरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. केलहारी	..				
5. भरतपुर	..				
6. कोटाडोल	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	..		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. घरघोड़ा	..				
5. तमनार	..				
6. लैलूंगा	..				
7. मुकडेगा	..				
8. धरमजयगढ़	..				
9. छाल	..				
10. कापू	..				
जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़	मिलीमीटर				
1. सारंगढ़	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बरमकेला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
3. सरिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बिलाईगढ़	..				
5. भटगांव	..				
6. सरसीवां	8.0				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. कुनकुरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				
9. बागबहार	..				

(पी. आर. प्रधान)

उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर.